

# Хүрэн Улаан

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Пролетарии всех отран, соединяйтесь!  
БУРЯТ-МОНГОЛУН  
УНЭН.  
Орган ЦИК'а Буреспублики и  
Буробкома ВКП (б).  
Газета выходит 2 раза  
в неделю  
№ 70 (272)  
ГОД ИЗДАНИЯ V.  
Суббота 3 Ноября  
1928 года.

Адрес Редакции г. Верхнеудинск  
Объединенное Газетное Издательство.

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год



## Хүрэн Улаан хотын газрын газар



Хүрэн Улаан хотын газрын газар

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год

Хүрэн Улаан хотын газрын газар  
1928 год











Врид редактор Д. Дашиняев.

« 1. 2007 »

« 2. 2007 »

« 3. 2007 »

« 4. 2007 »

« 5. 2007 »

« 6. 2007 »

« 7. 2007 »

« 8. 2007 »

« 9. 2007 »

« 10. 2007 »

« 11. 2007 »

« 12. 2007 »

« 13. 2007 »

« 14. 2007 »

« 15. 2007 »

« 16. 2007 »

« 17. 2007 »

« 18. 2007 »

« 19. 2007 »

« 20. 2007 »

« 21. 2007 »

« 22. 2007 »

« 23. 2007 »

« 24. 2007 »

« 25. 2007 »

« 26. 2007 »

« 27. 2007 »

« 28. 2007 »

« 29. 2007 »

« 30. 2007 »

« 31. 2007 »

« 32. 2007 »

« 33. 2007 »

« 34. 2007 »

« 35. 2007 »

« 36. 2007 »

« 37. 2007 »

« 38. 2007 »

« 39. 2007 »

« 40. 2007 »

« 41. 2007 »

« 42. 2007 »

« 43. 2007 »

« 44. 2007 »

« 45. 2007 »

« 46. 2007 »



« 47. 2007 »

« 48. 2007 »

« 49. 2007 »

« 50. 2007 »

« 51. 2007 »

« 52. 2007 »

« 53. 2007 »

« 54. 2007 »

« 55. 2007 »

« 56. 2007 »

« 57. 2007 »

« 58. 2007 »

« 59. 2007 »

« 60. 2007 »

« 61. 2007 »

« 62. 2007 »

« 63. 2007 »

« 64. 2007 »

« 65. 2007 »

« 66. 2007 »

« 67. 2007 »

« 68. 2007 »

« 69. 2007 »

« 70. 2007 »

« 71. 2007 »

« 72. 2007 »

« 73. 2007 »

« 74. 2007 »

« 75. 2007 »

« 76. 2007 »

« 77. 2007 »

« 78. 2007 »

« 79. 2007 »

« 80. 2007 »

« 81. 2007 »

« 82. 2007 »

« 83. 2007 »

« 84. 2007 »

« 85. 2007 »

« 86. 2007 »

« 87. 2007 »

« 88. 2007 »

« 89. 2007 »

# « 90. 2007 »

« 91. 2007 »

« 92. 2007 »

« 93. 2007 »

« 94. 2007 »

« 95. 2007 »

« 96. 2007 »

« 97. 2007 »

« 98. 2007 »

« 99. 2007 »

« 100. 2007 »

« 101. 2007 »

« 102. 2007 »

« 103. 2007 »

« 104. 2007 »

« 105. 2007 »

« 106. 2007 »

« 107. 2007 »

« 108. 2007 »

« 109. 2007 »

« 110. 2007 »

« 111. 2007 »

« 112. 2007 »

« 113. 2007 »

« 114. 2007 »

« 115. 2007 »

« 116. 2007 »

« 117. 2007 »

« 118. 2007 »

« 119. 2007 »

« 120. 2007 »

« 121. 2007 »